



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 ज्येष्ठ 1945 (श0)

(सं0 पटना 486) पटना, बुधवार, 21 जून 2023

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

21 जून 2023

सं० 7 / स्था०-05-02 / 2022-11859 / सा०प्र०—बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-8 / वि०प्र०-02-10 / 2019 (40) लो०से०आ०/गो० दिनांक 14.11.2022 द्वारा 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (वि०सं०-04 / 2020) के आधार पर निम्नांकित अनुशंसित अभ्यर्थी को बिहार न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली-1955 के नियम-24 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर ₹ 77840-136520 (J-1) के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है:-

क्र०	अनुक्रमांक	नाम	मेधा क्रमांक	जन्म तिथि	लिंग	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5	6	7
1	100364	राखी कुमारी	369	20.06.85	महिला	04

- उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति भविष्य में माननीय न्यायालय में लंबित मामलों के फलाफल से प्रभावित होगी तथा पी०एच०डी० के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अन्य संस्थानों से अवैध तरीके से राशि प्राप्त किये जाने के संबंध में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी।
- भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।
- वित्त विभाग के संकल्प सं०-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे० को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार उक्त नियुक्त होने वाले न्यायिक पदाधिकारी पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
- बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2017 में बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 के नियम 25(ख) में विभागीय अधिसूचना संख्या-7 / स्था०-1-4-05 / 2011 सा०प्र० 3245 दिनांक 17.03.2017 द्वारा किये गये प्रावधान के अनुसार "असैनिक न्यायाधीश

(कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उसे तीन माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा करनी होगी।”

6. योगदान के पूर्व उक्त के शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि आदि की पूर्णतया जाँच कर कार्यालय अपने स्तर से भी संतुष्ट हो लेना चाहेगा।
7. उक्त अभ्यर्थी को फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
8. योगदान किये जाने हेतु उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नियुक्त उक्त अभ्यर्थी की सेवा उच्च न्यायालय, पटना को सौंपी जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
गुफरान अहमद,  
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 486-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>